

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2010—पौष 25, शक 1931

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (पंचायत प्रकोष्ठ), जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 12 दिसम्बर 2009

संशोधित अधिसूचना

क्र.-पं.निर्वा.-आरक्षण-09-10.—मैं, राजकुमार पाठक, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1/1994) की धारा 17 की उपधारा (2) (3) एवं (4) के अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 7 में विहित की गई आरक्षण प्रक्रिया चक्रानुक्रम से लॉट निकाल कर जनपद पंचायत पिछोर के क्षेत्र की कुल 75 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए दिनांक 20 नवम्बर 2009 को मानस भवन शिवपुरी में जन साधारण के समक्ष निकाले गये लॉट प्रक्रिया में ग्राम पंचायत रूपेपुर को अ. जा. महिला वर्ग के लिये आरक्षित किया गया था. किन्तु ग्राम पंचायत रूपेपुर में अ.जा. वर्ग की जनसंख्या नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर जाँच उपरांत शिकायत सत्य पाये जाने से उक्त त्रुटी के सुधार हेतु मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 33 (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 17 के अंतर्गत अनारक्षित महिला वर्ग की ग्राम पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत के आरक्षण की कार्यवाही हेतु सूचना क्रमांक 10530, दिनांक 8 दिसम्बर 2009 जारी की गई जिसमें दिनांक 12 दिसम्बर 2009 को समय 11 बजे स्थान जनपद पंचायत कार्यालय पिछोर नियत किया गया. तदनुसार नियत दिनांक को आरक्षण की कार्यवाही सर्वसाधारण के समक्ष लॉट निकालकर सम्पन्न की गई जिसमें ग्राम पंचायत वडेरा लॉट में निकलने से ग्राम पंचायत वडेरा को अ.जा. महिला वर्ग के लिये तथा ग्राम पंचायत रूपेपुर को अ.जा. महिला वर्ग से पृथक कर अनारक्षित महिला वर्ग के लिए आरक्षित करता हूँ:—

सरपंच पद हेतु (मुक्त) आरक्षित ग्राम पंचायतें

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. विरोली	1. करारखेडा	1. देवरीखुर्द	1. केडर
2. चंदावली	2. देवगढ	2. सुजावनी	2. बामोरडामरोन
3. मुहार	3. वमेरा	3. डकियागोविन्द	3. कुम्हरौअ

(1)	(2)	(3)	(4)
4. उमरीकला	4. लभेडा	4. गणेशखेडा	4. मल्हावनी
5. माचमोर	5. गुरुकुदवाया	5. विजयपुर	5. छिरवाहा
6. केमखेडा		6. धोरा	6. तिजारपुर
		7. वमना	7. भरतपुर ईमलिया
		8. नयाखेडा	8. शेरगढ
		9. गौचोनी	9. उमरीखुर्द
			10. पारेश्वर
			11. बरेला
			12. दरगवां
			13. पिपरो
			14. ककरौआठुनी
			15. चिन्नोदी
			16. विलरई
			17. पायगा

सरपंच पद हेतु महिला वर्ग के लिये आरक्षित ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायत पिछोर

सारणी

अनुसूचित जाति (1)	अनुसूचित जनजाति (2)	अन्य पिछड़ा वर्ग (3)	अनारक्षित (4)
1. वूढोनकरैरा	1. दुल्हई	1. मनपुरा	1. हिम्मतपुर
2. खडोय	2. चौमुहा	2. वीरा	2. तिघारी
3. महोंवाडामरोन	3. खोड	3. नदना	3. रुपेपुर
4. नांद	4. कछौआ	4. पटसेरा	4. मउकुडच्छा
5. भयावन	5. पिपारा	5. ढला	5. भडोरा
6. भवरहार		6. भौती	6. भगवां
7. वडेरा		7. गढोईया	7. आसपुर
		8. बक्सनपुर	8. सलैया
		9. अगरा	9. सेमरी
		10. बदरखा	10. जराय
			11. बाचरोन
			12. बदरवास
			13. पडोरा
			14. खेरवास
			15. नावली
			16. नागुली

राजकुमार पाठक, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं विहित प्राधिकारी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

बालाघाट, दिनांक 24 दिसम्बर 2009

क्र. 1011-स्था.-निर्वा.-2009.—मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल द्वारा “मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र”, दिनांक 25 अगस्त 2009 को बालाघाट जिले के अंतर्गत अधिसूचित नगर पंचायत लांजी के लिये मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 (1) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका (वार्डों का विस्तार) नियम, 1994 की धारा 6 एवं 8 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नवगठित नगर पंचायत लांजी के अंतर्गत निम्नानुसार वार्डों की सीमा निर्धारित की जाती है:—

नव गठित नगर पंचायत लांजी, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश नगरपालिका वार्डों का विस्तार)

नियम 1994 की धारा 6 के अंतर्गत वार्डों की सीमा निर्धारित करने संबंधी अंतिम प्रकाशन:—

1. नगर पंचायत का नाम	लांजी
2. नगर पंचायत में शामिल कुल ग्राम पंचायतें (ग्राम पंचायत लांजी)	01
3. नगर पंचायत में शामिल कुल (राजस्व) ग्राम आबाद ग्राम लांजी, काशीटोला एवं विरान ग्राम बगदेही	02 (आबाद ग्राम) 01 (वीरान ग्राम)
4. वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर नगर पंचायत लांजी की कुल जनसंख्या	1. ग्राम लांजी 11,306 2. ग्राम काशीटोला 358 <u>कुल योग . . 11,664</u>
5. कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या	1. ग्राम लांजी 793 2. काशीटोला 00
6. कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	1. ग्राम लांजी 1414 2. काशीटोला 153
7. कुल पुरुष वर्ग की जनसंख्या	1. ग्राम लांजी 5703 2. काशीटोला 167
8. कुल महिला वर्ग की जनसंख्या	1. ग्राम लांजी 5603 2. काशीटोला 191
9. नगर पंचायत क्षेत्र में विभाजित वार्डों की संख्या	15
10. प्रत्येक वार्डों की कुल औसत जनसंख्या	777.6

प्रत्येक वार्डों की चारों दिशाओं की सीमा दर्शाने वाला पत्रक का अंतिम प्रकाशन

1. वार्ड क्र. 01 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

महात्मा गांधी वार्ड

मकान नं. 01 बकरामुण्डी योगेश/नरबद के मकान से.

मकान नं. 27 यशवंत/सम्पत के मकान तक.

मकान नं. 01 बकरामुण्डी आवासटोली (धीरी) मेहतर निहालसिंह के मकान से मकान नं. 25 बैसाखू के मकान तक.

मकान नं. 01 से काशीटोला कौडूलाल/मुन्ना के मकान से मकान नं. 34, 26/2 से 36 दिलीप रेवाजी एवं चुन्नीलाल के मकान तक.

कुल जनसंख्या	755
अजा जनसंख्या	5
अजजा जनसंख्या	465
अन्य अपिव जनसंख्या	279

- | | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 1. उत्तर में:— | श्री योगेश/नरबद का मकान |
| 2. पूर्व में:— | श्री बालचन्द्र वल्द श्रवण का मकान |
| 3. दक्षिण में:— | श्री कपूरचन्द्र वल्द सीताराम का मकान |
| 4. पश्चिम में:— | श्री कौडू वल्द मुन्नालाल का मकान |

2. वार्ड क्र. 02 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

मकान नं. 38 ब्लाक कालोनी इनवाती के मकान से
मकान नं. 41/2 पाण्डूलाल/धानू के मकान तक
मकान नं. 66/7 सिंचाई कालोनी कोमल के मकान से
मकान नं. 159 आवास कालोनी अरूण/उदाजी के मकान से होते हुये
गोपीचन्द्र मोतीराम के मकान तक.
मकान नं. 165 रेस्टहाउस के पीछे आवास कालोनी
मकान नं. 198 धनीराम/रोंगट्या के मकान तक.

कुल जनसंख्या	782
अजा जनसंख्या	76
अजजा जनसंख्या	185
अन्य अपिव जनसंख्या	492

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1. उत्तर में:— | आवास कालोनी |
| 2. पूर्व में:— | श्री डी.पी.कुल्हाड़े जी का मकान |
| 3. दक्षिण में:— | श्री सरस्वती शिशु मंदिर |
| 4. पश्चिम में:— | श्री पतिराम वल्द सूरज का मकान. |

3. वार्ड क्र. 03 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

मकान नं. 199 रेस्टहाउस के पीछे आवास कालोनी में कुरैई बाई के
मकान से मजार वाली रोड होते हुये सालेटेकरी रोड के दाहिने भाग में
मकान नं. 296/4 सेन्ट्रल बैंक की पीछे की कालोनी में सुमत्रा/दशाराम के
मकान तक.
मकान नं. 239 सुरेन्द्र बेनीराम के मकान से मकान नं. 256/3 रेस्टहाउस
होते हुये बालाघाट रोड के दाहिने हाथ के तरफ नाथूराम गुव्हा के
मकान तक.
मकान नं. 258 कमल टाकीज के पास से रामचन्द्र केशोराव के
मकान से.
मकान नं. 299 चांदनी चौक होते हुये श्यामलाल साबाजी के
मकान तक.

कुल जनसंख्या	794
अजा जनसंख्या	63
अजजा जनसंख्या	78
अन्य अपिव जनसंख्या	608

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| 1. उत्तर में:— | नाथूराम गुव्हा का मकान. |
| 2. पूर्व में:— | श्रावणलाल साबाजी का मकान. |
| 3. दक्षिण में:— | मां. लंजकाई द्वार. |
| 4. पश्चिम में:— | पेट्रोल पंप. |

4. वार्ड क्र. 04 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

5. वार्ड क्र. 05 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

6. वार्ड क्र. 06 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

शहीद भगतसिंह वार्ड

मकान नं. 299/1 नाजरा बेगम/नत्थे खां के मकान से होते हुये सी.आई.ए. स्कूल से मकान नं. 324 नारायण/केशोराव के मकान तक. मकान नं. 328 दुर्गाप्रसाद/नारायण के मकान से होते हुये गुजरी चौक नया राम मंदिर नेहरू चौक से खरगाल मोहल्ला से मकान नं. 411 तरुण चिन्तामन के मकान तक.

781
20
19
552

- कब्रस्तान होते हुये कन्या. माध्य. शाला भवन.
- अरुण वल्द चिन्तामन का मकान एवं स्वीपर कालोनी.
- नाजरा बेगम का मकान.
- दुर्गाप्रसाद का मकान.

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस वार्ड

मकान नं.412 बरेज पट्टी रोड हुसना बेगम, सिराज खान के मकान से मकान नं. 497 रूखमणी भगवती प्रसाद के मकान तक. मकान नं. 42 खैरूननिशा/जब्बार मोहम्मद के मकान से लेकर आवास कालोनी होते हुये सालेटेकरी रोड पी.डब्ल्यू.डी. आफिस के पीछे का भाग से मकान नं. 66/6 देवेन्द्र/जगदीश के मकान तक. मकान नं. 450 बारेलाल/मेहतर के मकान से मण्डई टेकरी आवास से मकान नं. 475 चमर्या/दशरथ के मकान से पटेल बोडी तालाब तक.

765
42
177
501

- मण्डई टेकरी के मकान.
- चमर्या वल्द दशरथ का मकान.
- पुनाराम वल्द नहान्या का मकान.
- रूखमणी भगवती का मकान.

पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड

मकान नं.476/1 बारेलाल/दादू के मकान से भीमसेन अमराई रोड से लेकर रेंज आफिस होते हुये मकान नं. 514/4 मोहनलाल/रुपचन्द के मकान तक.

मकान नं. 693 संजय/ विश्वनाथ के मकान से पूर्वाटोला रोड होते हुये मकान नं. 996 विजय कुमार श्रावणलाल के मकान तक. मकान नं. 51 आशा/लखनलाल के मकान से मरार मोहल्ला होते हुये मकान नं. 569/3 पुष्पा/संतोष के मकान दुर्गा मंदिर तक.

789
2
132
649

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

आवास कालोनी के मकान.
बारेलाल वल्द दादू का मकान.
रेंज आफिस.
बुधवारा बाई का मकान.

7. वार्ड क्र. 07 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

डॉ. आम्बेडकर वार्ड

मकान नं.569/5 बुधवारा बाई/हिरालाल के मकान से मरार.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

776
200
0
576

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

बुधवारा/हीरा का मकान.
जगन/धेडू का मकान.
राजा-रानी तालाब.
प्राचीन किला.

8. वार्ड क्र. 08 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

छत्रपति शिवाजी वार्ड

मकान नं. 640/1 ताराचन्द/मोहनलाल के मकान से होते हुये बरई मोहल्ला होते हुये लंजकाई मंदिर से मनिबाई स्कूल होते हुये मकान नं. 692/2 मनेरी फाटक तक.

मकान नं. 602 से 609 एवं 620, 623, 626/9, 634 से हरीलाल मुक्का के मकान से मकान नं. 639 शकुन/छोटेला ल के मकान तक.

मकान नं.692, 693 बुदुकलाल के मकान से बरई मोहल्ला होते हुये बरई मोहल्ला से मेन रोड सुरेन्द्र बारेलाल के मकान से होते हुये मकान नं. 701 गुजरी चौक अशोक अग्रवाल के मकान तक.

मकान नं. 703 लिल्हारी गोस्वामी के मकान से द्वारका प्रसाद के मकान होते हुये मकान नं. 725/2/उषा/दौलत के मकान तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

778
12
67
617

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—
9. वार्ड क्र. 09 ग्राम लांजी

हरीलाल वल्द नानर का मकान.
कमला/सेवकराम का मकान.
मोहनलाल/बिरजू का मकान.
मनेरी फाटक रोड.

वार्ड का नाम:—

बाल गंगाधर तिलक वार्ड

मकान नं. 726 दिलीप जैन के मकान से मकान नं. 737 लेखराम अन्तराम के मकान तक.

मकान नं. 740 बैनाबाई/बारेलाल के मकान से मकान नं. 880 राकेश/गोमाजी मकान तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

775
70
72
623

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

मानसिंग रूपचन्द का मकान.
राजकुमार/रामभाउ कुशले का मकान.
राकेश/गोमाजी का मकान.
सुरेश/सालिकराम का मकान.

10. वार्ड क्र. 10 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

मकान नं. 841 ठाकुर/मांगीलाल के मकान से होते हुये मकान नं. 852/2 सुनील/अशोक कुमार के मकान तक.
मकान नं. 854 संतोष/देवराम के मकान से होते हुये कुम्हार मोहल्ला मकान नं. 859/1 जमनाशंकर/जग्गु के मकान तक.
मकान नं. 860 नारायण/अर्जुन के मकान से होते हुये व कुम्हार मोहल्ला, चम्हार मोहल्ला, तेली मोहल्ला मनेरी फाटक रोड किसान चौक से मकान नं. 911/01 खेमराज/दयाराम के मकान तक. मकान नं. 912 नंदा सिरपत के मकान से होते हुये मनेरी फाटक रोड मकान नं. 926/3 कृष्णकांत/दयाराम के मकान तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

774
137
12
624

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

हेमराज/सुखराम का मकान.
गणेश/झीलया का मकान.
जमना/शंकर का मकान.
कृष्णकांत/दयाराम का मकान.

11. वार्ड क्र. 11 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

मकान नं. 928 मोहनलाल/रामप्रसाद के मकान से होते हुये मकान नं. 1000/10 अनिता/बाबूलाल के मकान तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

779
21
8
683

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

दिवान/बेनीराम का मकान.
मोहनलाल/रामप्रसाद का मकान.
युशुफ पटेल का मकान.
भिलाई रोड़.

12. वार्ड क्र. 12 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

रानी दुर्गावती वार्ड

मकान नं. 1001 वासना/देवानंद के मकान से.
मकान नं. 1092 रामचन्द/चिन्धू के मकान तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

772
15
60
627

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

पितमलाल/परसराम का मकान.
बाबुलाल/मयाराम का मकान.
नीलकंठ/बजलाल का मकान.
रामचन्द्र/चिन्धू का मकान.

13. वार्ड क्र. 13 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

लाला लाजपतराय वार्ड

मकान नं. 1093 विमला श्रीवास्तव के मकान से सुन्दरटोला होते हुये
आमगांव रोड मार्ग के दाहिने ओर (लल्ला पटेल) से मकान नं.
1118/ 1/5 सुभाष/कन्हैया के मकान तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

783
0
0
764

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

कमला/बलराम का मकान.
सेवकराम ठाकरे का मकान.
नक्टा बांध तालाब.
लल्ला पटेल का मकान.

14. वार्ड क्र. 14 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

मकान नं. 1143, 1182 राधेश्याम/दाजी के मकान से नंदलाल/मांगीलाल,
जुगादेटोला, लोधी मोहल्ला, मरार मोहल्ला से होते हुये मकान नं.
1258/4 माना मोहल्ला तक.

मकान नं. 1287 एवं 1340 से 1341 तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

765
0
180
573

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

चन्देलाल/रामाजी का मकान.
नंदलाल/मांगीलाल का मकान.
माँ शीतला मंदिर.
नीमटोला नहर मार्ग.

15. वार्ड क्र. 15 ग्राम लांजी

वार्ड का नाम:—

पं. दीनदयाल वार्ड

मकान नं. 1259 कचरुलाल/घस्सू के मकान से मकान नं. 1353
यंशवंत/तिलक के मकान, कलार मोहल्ला, लोधी मोहल्ला एवं माना
मोहल्ला तक.

कुल जनसंख्या
अजा जनसंख्या
अजजा जनसंख्या
अन्य अपिव जनसंख्या

796
0
48
748

1. उत्तर में:—
2. पूर्व में:—
3. दक्षिण में:—
4. पश्चिम में:—

देवराम/नलथूजी का मकान.
बालाजी राईस मील.
रमेश/जंटू का मकान.
वार्ड नं. 14 की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी.